

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में ट्रेड्स ऑफ रोबोटिक्स इन इंडिया (TORI-23) का आयोजन

फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 31 जनवरी 2023 को ट्रेड्स ऑफ रोबोटिक्स इन इंडिया (टीओआरआई-23) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन रोबोटिक्स सोसाइटी-जेएमआई स्टूडेंट चैप्टर द्वारा प्रो. मोहम्मद सुहैब, सोसायटी के संकाय सलाहकार के मार्गदर्शन में किया गया था।

यह कार्यक्रम उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ, जिसमें श्री हरदीप सिंह अरोड़ा मुख्य अतिथि थे, जोकि प्रौद्योगिकी और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मिंडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में तीन दशकों से अधिक समय तक सेवा की है। इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय की डीन प्रो. मिनी एस. थॉमस तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जाहिद अख्तर खान ने अध्यक्षता की। उद्घाटन सत्र में सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया और उन्होंने दर्शकों को संबोधित किया।

इस सत्र के बाद, रोबोटिक्स के क्षेत्र से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता, पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता और शोध पत्र प्रस्तुति। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने इस विशाल क्षेत्र में अपने बहुमूल्य योगदान को प्रदर्शित करने और इन तकनीकी प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत की। इन आयोजनों को उच्च अनुभवी संकाय सदस्यों और विशेषज्ञों द्वारा आंका गया जो नवाचारों के इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं।

मूल्यांकन दौर के अंत में, जामिया के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में समापन सत्र आयोजित किया गया। संबंधित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनके सराहनीय प्रयासों और लगातार कड़ी मेहनत के लिए प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किये गए। सत्र का समापन टीआरएस जेएमआई स्टूडेंट चैप्टर के फैकल्टी सलाहकार प्रो. मोहम्मद सुहैब द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। यह आयोजन बहुत सफल रहा क्योंकि पूरी आयोजन समिति ने इसे सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया